



2

19 Mar 2026

12:30 PM

Navsari

Model: Baby-Horoscope

Order No: 121644001


तिथि 19/03/2026 समय 12:30:00 वार गुरुवार स्थान Navsari चित्रपक्षीय अयनांश : 24:13:30  
अक्षांश 20:58:00 उत्तर रेखांश 73:01:00 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:37:56 घंटे

<b>पंचांग</b>	<b>अवकहड़ा चक्र</b>
साम्पातिक काल : 23:39:26 घं	गण _____: मनुष्य
वेलान्तर _____: 00:07:47 घं	योनि _____: गौ
सूर्योदय _____: 06:43:23 घं	नाडी _____: मध्य
सूर्यास्त _____: 18:48:25 घं	वर्ण _____: विप्र
चैत्रादि संवत _____: 2082	वश्य _____: जलचर
शक संवत _____: 1947	वर्ग _____: सर्प
मास _____: चैत्र	र्युजा _____: अन्त्य
पक्ष _____: कृष्ण	हंसक _____: जल
तिथि _____: 1	जन्म नामाक्षर _____: थ-थानसिंह
नक्षत्र _____: उ०भाद्रपद	पाया(रा.-न.) _____: ताम्र-लौह
योग _____: शुक्ल	होरा _____: चंद्र
करण _____: किंस्तुघ्न	चौघड़िया _____: चर


<b>विंशोत्तरी</b>	<b>योगिनी</b>
शनि 13वर्ष 0मा 22दि शनि	भद्रिका 3वर्ष 5मा 7दि भद्रिका
19/03/2026 11/04/2039	19/03/2026 25/08/2029
00/00/0000	00/00/0000
19/03/2026	19/03/2026
केतु 31/01/2027	सिद्धा 24/02/2027
शुक्र 01/04/2030	संकटा 05/04/2028
सूर्य 14/03/2031	मंगला 26/05/2028
चन्द्र 13/10/2032	पिंगला 04/09/2028
मंगल 21/11/2033	धान्या 04/02/2029
राहु 27/09/2036	भामरी 25/08/2029
गुरु 11/04/2039	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			09:48:34	मिथु	आर्द्रा	1	राहु	गुरु	---	0:00			
सूर्य			04:27:33	मीन	उ०भाद्रपद	1	शनि	शनि	मित्र राशि	2.05	कलत्र	पितृ	जन्म
चंद्र			07:30:03	मीन	उ०भाद्रपद	2	शनि	केतु	सम राशि	1.58	ज्ञाति	मातृ	जन्म
मंगल	अ		18:55:25	कुंभ	शतभिषा	4	राहु	चंद्र	सम राशि	1.02	भातृ	भातृ	मित्र
बुध	व		14:22:56	कुंभ	शतभिषा	3	राहु	बुध	सम राशि	1.07	मातृ	ज्ञाति	मित्र
गुरु			20:58:12	मिथु	पुनर्वसु	1	गुरु	गुरु	शत्रु राशि	1.42	अमात्य	धन	अतिमित्र
शुक्र			21:43:16	मीन	रेवती	2	बुध	सूर्य	उच्च राशि	1.20	आत्मा	कलत्र	सम्पत
शनि	अ		09:44:15	मीन	उ०भाद्रपद	2	शनि	शुक्र	सम राशि	1.08	पुत्र	आयु	जन्म
राहु	व		14:44:14	कुंभ	शतभिषा	3	राहु	केतु	मित्र राशि	---		ज्ञान	मित्र
केतु	व		14:44:14	सिंह	पू०फाल्गुनी	1	शुक्र	शुक्र	शत्रु राशि	---		मोक्ष	क्षेम


### लग्न-चलित




### चन्द्र कुंडली




### नवमांश कुंडली



### सर्वाष्टकवर्ग



### दशमांश कुंडली



## नक्षत्रफल

आप उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में उत्पन्न हुए हैं। अतः आपकी जन्मराशि मीन तथा राशिस्वामी वृहस्पति होगा। नक्षत्र के अनुसार आपका वर्ण विप्र, नाड़ी मध्य, वर्ग सर्प, गण मनुष्य तथा गो योनि होगी। नक्षत्र के द्वितीय चरणानुसार आपके जन्म नाम का प्रारम्भ "थ" या "था" अक्षर से होगा।

आप अपने कुल तथा परिवार के मध्य श्रेष्ठ रहेंगे तथा सभी पारिवारिक जन आपको यथोचित स्नेह तथा सम्मान प्रदान करेंगे। आप मध्यम शारीरिक कद के पुरुष होंगे तथा सत्कार्यों को करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। आपके इन शुभ कर्मों से अन्य जन भी समय समय पर लाभान्वित होते रहेंगे। आप धनाढ्य पुरुष होंगे एवं विपुल धन सम्पत्ति से युक्त रहकर जीवन में प्रसन्नता पूर्वक इसका उपभोग करेंगे। यदा कदा आप में अभिमानी प्रवृत्ति भी जागृत होगी एवं अन्य लोगों के समक्ष इसका प्रदर्शन करेंगे जिससे कई लोग आपसे अप्रसन्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक कीर्तिशाली पुरुष होंगे तथा समाज में दूर दूर तक यश प्राप्त करेंगे।

**कुलस्य मध्येऽधिकभूषणं च नात्युच्चदेहः शुभकर्मकर्ता ।  
यस्तोत्तराभाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः । ।  
जातकाभरणम्**

अर्थात् उत्तराभाद्रपद में उत्पन्न जातक कुल में श्रेष्ठ, मध्यम देह वाला, शुभकर्मों को करने वाला, धनाढ्य, अभिमानी और कीर्तिशाली होता है।

आप एक सत्वगुणी पुरुष होंगे एवं इन गुणों का आप जीवन में प्रयत्नपूर्वक अनुपालन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपके अर्न्तमन में त्याग का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा समयानुसार पारिवारिक तथा सामाजिक जनों के मध्य आप इसी प्रवृत्ति का भी पालन करते रहेंगे। धन का आपके पास अभाव नहीं रहेगा तथा विभिन्न शास्त्रों का ज्ञानार्जन करके आप एक विद्वान के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर सकेंगे।

**चाहिर्बुध्न्यजमानवो मृदुगुणस्त्यागी धनी पंडितः ।  
जातक परिजातः**

अर्थात् उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उत्पन्न जातक मृदुगुणों से सम्पन्न अर्थात् सात्विक, धनी, त्यागी और पंडित होता है।

आप एक उच्च कोटि के वक्ता होंगे तथा अपने ओजस्वी वक्तव्यों से समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करने में सर्वदा समर्थ रहेंगे तथा जीवन में पूर्ण रूप से सुखसंसाधनों से युक्त रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनका उपभोग भी करेंगे। आपका परिवार अत्यन्त ही विस्तृत रहेगा तथा पुत्र पौत्रादि के सुख को भी आप प्राप्त करने में सौभाग्यशाली रहेंगे। शत्रुवर्ग आपसे नित्य पराजित तथा भयभीत रहेगा एवं आपका विरोध करने में सर्वथा असमर्थ रहेगा। इसके साथ ही

आप धार्मिकता की भावना से भी युक्त रहेंगे एवं समस्त धार्मिक प्रवृत्तियों का यत्नपूर्वक आचरण करते रहेंगे।

**वक्ता सुखी प्रजावान जितशत्रुधार्मिको द्वितीयासु ।  
बृहज्जातकम्**

अर्थात् उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जातक वक्ता, जीवन में सुखी, बहुत पुत्र एवं पौत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला तथा धार्मिक आचरण से सम्पन्न होता है।

समाज में आप एक गौरवशाली व्यक्ति माने जाएंगे तथा अपने सत्कार्यों एवं गुणों से गौरव प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही धर्म के विषय में भी आपका ज्ञान विस्तृत रहेगा एवं समाज में एक श्रद्धेय तथा आदरणीय पुरुष के रूप में आपका नित्य आदर होता रहेगा। आप एक साहसी व्यक्ति भी होंगे तथा साहसिक एवं शौर्योचित कार्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी एवं इनको सम्पन्न करने में आप हमेशा उत्सुक तथा तत्पर रहेंगे।

**गौरः ससत्वो धर्मज्ञः शत्रुघाती परामरः ।  
उत्तराभाद्रपदजो नरः साहसिको भवेत् ।।  
मानसागरी**

अर्थात् उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ मनुष्य गौरवर्ण, धर्म का ज्ञाता, शत्रुओं का नाश करने वाला, देवताओं के तुल्य, सत्वगुण प्रधान एवं साहसी होता है।

ताम्र पाद में उत्पन्न होने के कारण आप राज्य या सरकार से धन लाभ अर्जित करने में हमेशा सफल रहेंगे तथा समाज में दूर दूर तक आपकी ख्याति व्याप्त रहेगी। देखने में आपका सौन्दर्य आकर्षक रहेगा। आप सन्तोषी प्रवृत्ति के होंगे तथा अनावश्यक इच्छाओं को मन में उत्पन्न नहीं करेंगे। आप श्रेष्ठ आचरण से युक्त रहेंगे तथा सभी लोग आपका आदर सत्कार करेंगे। विविध प्रकार की धन सम्पत्तियों तथा सुखसंसाधनों से आप युक्त रहेंगे एवं जीवन में प्रसन्नता पूर्वक इसका उपभोग करेंगे। माता पिता के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा रहेगी तथा इनसे भी आप पूर्ण धन सम्पत्ति को प्राप्त करेंगे। आप एक विद्वान पुरुष होंगे तथा ज्ञानार्जन में आपकी विशेष रुचि रहेगी। आप अपने द्वारा प्रारम्भ कार्यों में शीघ्र ही सफलता अर्जित करेंगे तथा नाना प्रकार के वाहन एवं भूमि से भी युक्त रहकर प्रसन्न रहेंगे। धर्म के प्रति आपके मन में विशेष श्रद्धाभाव रहेगा। आप एक पराक्रमी पुरुष भी होंगे। आप में परोपकार की भावना भी रहेगी तथा सज्जन पुरुषों का आप नित्य आदर करेंगे। इसके अतिरिक्त आप में दानशीलता का भाव भी विद्यमान रहेगा।

मीन राशि में उत्पन्न होने के कारण आप शारीरिक रूप से सुन्दर एवं आकर्षक रहेंगे तथा आपका मस्तक विशाल एवं नासिका ऊँची रहेगी। आपकी आंखें भी सुन्दर होंगी एवं समस्त शरीर के अंग पुष्ट एवं सुडौल रहेंगे। आपका कटिभाग क्षीण रहेगा। आप चित्रकारी में विशेष रुचिशील रहेंगे तथा परिश्रमपूर्वक इस क्षेत्र में सफलता तथा ख्याति अर्जित करेंगे। शत्रुवर्ग को नष्ट करने में आप हमेशा समर्थ रहेंगे तथा वे सभी आपसे भयाक्रान्त रहेंगे।

आप एक विद्वान पुरुष होंगे तथा कई शास्त्रों का आपको विस्तृत ज्ञान रहेगा। साथ ही संगीत में भी आपकी नैसर्गिक रुचि रहेगी तथा इसका आपको अच्छा ज्ञान रहेगा। आप एक धर्म निष्ठ व्यक्ति होंगे एवं श्रद्धापूर्वक धार्मिक आचरण सम्पन्न करते रहेंगे। स्त्री वर्ग में आप लोकप्रिय रहेंगे तथा उनसे पूर्ण मान सम्मान तथा सहयोग अर्जित करते रहेंगे। साथ कई महिलाओं से आपके मित्रतापूर्ण मधुर संबंध भी रहेंगे। आप अपने सम्भाषण में हमेशा मधुर एवं प्रिय वाणी का उपयोग करेंगे जिससे सभी लोग आपसे प्रभावित तथा प्रसन्न रहेंगे। आप अपने जीवन काल में आवश्यक सुखसंसाधनों से सम्पन्न रहेंगे एवं आनन्दपूर्वक जीवन में इनका उपयोग भी करेंगे। आप में क्रोध का भाव न्यून ही होगा तथा यदा कदा ही आप इसका प्रदर्शन करेंगे। आप राजकीय सेवा में भी नियुक्त रहेंगे तथा खान आदि से निकाले गए पदार्थों से भी अपनी आजीविकार्जन करेंगे। साथ ही इससे आप को पर्याप्त मात्रा में लाभ की भी प्राप्ति होती रहेगी। परन्तु स्त्री से आप पूर्ण रूप से वश में रहेंगे तथा अपने समस्त मुख्य सांसारिक कार्यों को उसी के कथनानुसार सम्पन्न करेंगे। समाज में अन्य लोगों से आपके प्रिय तथा मधुर संबंध रहेंगे तथा सभी आपके मृदु स्वभाव से प्रभावित रहेंगे। समुद्री जहाज में यात्रा करने या नाव आदि में सैर करने में भी आपकी हार्दिक प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप में दानशीलता का भाव भी रहेगा एवं समयानुसार इस प्रवृत्ति का आप पालन भी करते रहेंगे।

**शिल्पोत्पन्नाधिकरोळहितजयनिपुणः शास्त्रविच्चारुदेहो ।**

**गेयज्ञो धर्मनिष्ठो बहुयुवतिरतः सौख्यभाक् भूपसेवी ।।**

**ईष्टकोपो महत्कः सुखनिधिधनभाक् स्त्रीजितः सत्स्वभावो ।**

**यानासक्तः समुद्रे तिमियुगलगते शीतगौ दानशीलः ।।**

**सारावली**

आप जलोत्पन्न पदार्थों यथा शंख, मोती आदि अन्य रत्नों से नित्य लाभान्वित होते रहेंगे तथा इनसे युक्त भी रहेंगे। साथ ही जीवन में किसी अन्य व्यक्ति, संबंधी या मित्र की सम्पत्ति को आप प्राप्त करेंगे। नारी वस्त्रों के प्रति आपके मन में विशेष आसक्ति भी रहेगी। इसके साथ ही आप मध्यम शारीरिक कद के पुरुष होंगे।

**जलपरधनभोक्ता दारवासोळनुरक्तः ।**

**समरुचिरशरीरस्तुङ्गनासो बृहत्कः ।।**

**अभिभवति सपत्नान् स्त्रीजितश्चारुदृष्टिः ।**

**द्युतिनिधि धनभोगी पंडितश्चान्तराशौ ।।**

**बृहज्जातकम्**

आप दिन में कई बार जल पीने की इच्छा प्रदर्शित करेंगे। आप अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करेंगे तथा उससे हमेशा प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे फलतः आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। आप विद्वता के गुण से युक्त रहेंगे तथा अन्य जनों द्वारा उपकृत होने पर उसका उपकार स्वीकार करेंगे तथा उनका हार्दिक आभार भी प्रकट करेंगे। आपकी इस कृतज्ञता की भावना तथा अन्य सद्गुणों से सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे एवं आपको यथोचित सम्मान प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आप एक गणमान्य पुरुष होंगे तथा आपके अधिकांश कार्य अल्प

परिश्रम द्वारा भाग्यबल से ही सम्पन्न होंगे।

**अत्यम्बुपानः समचारुदेहः स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्ता ।  
विद्वान्कृतज्ञो लमिभवत्यलमित्रान् शुभेक्षणो भाग्ययुतोऽन्त्यराशौ ।।  
फलदीपिका**

आप अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सफल रहेंगे तथा हमेशा संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही आप एक चालाक एवं बुद्धिमान व्यक्ति भी होंगे तथा अपने समस्त सांसारिक कार्यों को चालाकी तथा बुद्धिमता से ही सम्पन्न करेंगे। जल कीड़ा में आपकी प्रबल आसक्ति रहेगी तथा प्रसन्नतापूर्वक इसमें विहार करके अत्यन्त ही सन्तुष्टि एवं प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त करेंगे।

**शशिनि मीनगते विजितेन्द्रियो बहुगुणः कुशलो जललालसः ।  
विमलधीः किल शस्त्रकलादरस्त्व बलताबलताकलितो नरः ।।  
जातकाभरणम्**

आपका अधिकांश समय उदरपोषण के कार्यों में ही व्यतीत होगा साथ ही कभी कभी लाभ मार्ग भी अवरुद्ध होंगे फलतः आपको आर्थिक कष्ट की अनुभूति भी हो सकती है। आपकी शारीरिक कान्ति दर्शनीय रहेगी एवं इससे आपके सौन्दर्य तथा व्यक्तित्व में आकर्षण की वृद्धि होती रहेगी। पिता से आपको पूर्ण धन सम्पत्ति की प्राप्ति होगी तथा इसका आप सुखपूर्वक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। आप एक साहसी पुरुष भी होंगे तथा नित्य साहसिक कार्यों को करने के लिए उत्सुक तथा तत्पर रहेंगे। आपका स्वभाव सन्तोषी होगा तथा जितनी भी आपको उपलब्धि हो रही हो उसी पर सन्तुष्ट रहेंगे एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे।

**जलचरधनभोक्ता मोहयुक्तोऽप्रशस्तः ।  
उदरभरणदेहस्तुङ्गमांसो डध्यः ।।  
अभिलषति सपत्नी स्त्रीजितश्च चारुकान्तिः ।  
पितृधनजनभोगी पीडितो मीनराशिः ।  
वुष्टः साहसी क्रोधयुक्तः मीनराशिर्मनुष्यः ।।  
जातकदीपिका**

आप गम्भीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तथा वीरता के गुणों से सर्वदा सुशोभित रहेंगे। समाज में आप एक गणमान्य एवं प्रतिष्ठित पुरुष होंगे तथा सभी लोग आपको श्रद्धेय तथा पूजनीय समझेंगे। साथ ही आप में कंजूसी का भाव भी रहेगा एवं धन संचय के प्रति आपकी विशेष रुचि रहेगी। आप अपने परिवार या कुल में सम्माननीय तथा प्रिय रहेंगे एवं सभी कौटुम्बिक जन आपको यथायोग्य स्नेह तथा आदर प्रदान करेंगे। आपको सेवा करने का कार्य रुचिकर लगेगा। अतः प्रायः आप इन कार्यों में तत्पर रहेंगे। आपकी चलने की गति भी तीव्र रहेगी तथा तेज चलना आपको रुचिकर लगेगा। इसके अतिरिक्त आपका आचरण उत्तम रहेगा एवं बन्धु वर्ग के मध्य आप अत्यन्त ही प्रिय रहेंगे।

**गम्भीरचेष्टितः शूरः पटुवाक्यो नरोत्तमः ।**

**कोपनः कृपणो ज्ञानी गुणश्रेष्ठः कुल प्रियः ।।  
नित्यसेवी शीघ्रगामी गाधर्वकुशलः शुभः ।।  
मीन राशौ समुत्पन्नौ जायते बन्धुवत्सलः ।।  
मानसागरी**

आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे तथा उत्तम कोटि के विद्वानों के लक्षणों से भी सुशोभित रहेंगे। साथ ही समाज में महिलाओं से भी आपके मित्रतापूर्ण घनिष्ठ संबंध रहेंगे एवं उनसे पूर्ण आदर तथा सम्मान अर्जित करेंगे।

**मीनस्थे मृगलाञ्छने वरतनुर्विद्वान बहुस्त्रीपतिः ।।  
जातक परिजातः**

मनुष्य गण में उत्पन्न होने के कारण आप की प्रवृत्ति धार्मिक रहेगी तथा देवता एवं ब्राह्मणों के प्रति आपके मन में विशेष श्रद्धा तथा सेवा का भाव रहेगा। परन्तु आप में अभिमान का भाव भी रहेगा अतः समय समय पर आप इसका प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे अन्य लोग आपसे असन्तुष्ट भी रहेंगे। आपके मन में दया एवं करुणा की भावना भी सर्वदा विद्यमान रहेगी एवं अवसरानुकूल इसका प्रदर्शन भी आप करते रहेंगे। साथ ही आप शारीरिक रूप से पूर्ण बलशाली होंगे एवं अपने अधिकांश कार्यों को अपने बल पर ही सम्पन्न करेंगे। इसके साथ ही कई प्रकार के कार्यों तथा कलाओं को सम्पन्न करने में भी आप निपुण रहेंगे। आपकी शारीरिक कान्ति दर्शनीय रहेगी एवं परिवार के अतिरिक्त अन्य कई लोगों को भी आप सुख प्रदान करेंगे।

आप समाज में हमेशा सम्मानित रहेंगे तथा धनैश्वर्य से सुसम्पन्न रहकर इसका सुखपूर्वक उपभोग करेंगे। आपकी आखें विशाल होंगी एवं निशानेबाजी की कला में आप अत्यन्त ही दक्ष रहेंगे तथा इस क्षेत्र में विशेष योग्यता एवं ख्याति अर्जित करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर के लोगों पर आपका पूर्ण प्रभाव रहेगा एवं आपकी आज्ञा पालन के लिए वे सर्वदा तत्पर रहेंगे।

**देवद्विजार्चाभिरतोभिमानी दयालुर्बलवान कलाज्ञः ।  
प्राज्ञः सुकान्ति सुखदो बहूनां मर्त्याभवे मर्त्यगणे प्रसूतः ।।  
जातकाभरणम्**

अर्थात् मनुष्य गण में उत्पन्न जातक ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, अभिमानी, दयालु, बलवान, कला का ज्ञाता, विद्वान, कान्तियुक्त तथा बहुत से मनुष्यों को सुख तथा आश्रय प्रदान करने वाला होता है।

गौ योनि में पैदा होने के कारण आप स्त्रीवर्ग के मध्य अत्यन्त ही प्रिय तथा आदरणीय रहेंगे एवं उनसे पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे। आप एक उत्साही पुरुष होंगे तथा हमेशा उत्साह की भावना से सुसम्पन्न रहेंगे तथा अपने अधिकांश कार्यों को सोत्साह सम्पन्न करेंगे। साथ ही आप बोलने में अत्यन्त ही चतुर होंगे तथा अपनी वाक्चतुरता से सबको प्रभावित करने में सफल रहेंगे।

**स्त्रीणां प्रियः सदोत्साही बहुवाक्य विशारदः ।**

स्वल्पायुश्चनरो जातः गो योनौ न सशंयः । ।

मानसागरी

अर्थात् गोयोनि में उत्पन्न जातक स्त्रियों का प्रिय, सदा उत्साह में रहनेवाला, वादविवाद में चतुर एवं अल्पायु होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा दशम भाव में स्थित है। अतः आप माता के प्रिय रहेंगे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घायु होगी। विभिन्न प्रकार की धन सम्पत्ति तथा सुखसंसाधनों से वे युक्त रहेंगी एवं आपको जीवन में उन सभी सुखों से परिपूर्ण करने के लिए यत्नशील रहेंगी। उनके सहयोग से ही आप जीवन में नौकरी, व्यापार तथा यश को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

आप भी उनके प्रति श्रद्धावान रहेंगे एवं एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे। जीवन में उनकी सेवा सुविधा का आप पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा यत्नपूर्वक उनको वांछित आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे एवं विचारों में विभिन्नता अल्प मात्रा में ही रहेगी। इस प्रकार एक दूसरे के लिए आप सामान्यतया शुभ ही रहेंगे।

आपके जन्म काल में सूर्य दशम भाव में स्थित है अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घ होगी। धनैश्वर्य से वे सर्वदा सुसम्पन्न रहेंगे एवं जीवन के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपकी उन्नति के लिए अपना पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही व्यापार तथा आजीविका संबंधी कार्यों में भी उन्हीं की प्रेरणा एवं सहयोग से आप सफलता अर्जित कर सकेंगे।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहेगी एवं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे परन्तु वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आप जीवन में उनको आर्थिक तथा अन्य रूप से पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा सुख दुःख में उनको पूर्ण सहायता तथा सहयोग प्रदान करेंगे।

आपके जन्म समय में मंगल नवम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन यदा कदा शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति भी करेंगे। आपके प्रति उनका अपनत्व रहेगा एवं जीवन के सुख दुःख में आपका नित्य सहयोग करते रहेंगे। इसके साथ ही आपकी भाग्योन्नति में भी वे वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता अवश्य प्रदान करेंगे। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा तथा इससे वे युक्त रहेंगे।

आप भी उनको हृदय से स्नेह एवं सम्मान प्रदान करेंगे एवं सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में उनको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आपके आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी परन्तु यदा कदा आपसी सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण उनमें कटुता भी आएगी लेकिन यह

अस्थाई रहेगी। इसके साथ ही उनकी भाग्योन्नति में भी आप समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एवं सुख दुःख में उनका पूर्ण साथ देंगे।

आपके लिए फाल्गुन मास, पंचमी, दशमी, पौर्णमासी तिथियां, आश्लेषा नक्षत्र, वज्रयोग, विष्टिकरण, शुक्रवार, चतुर्थ प्रहर तथा कुम्भ राशिस्थ चन्द्रमा सदैव अशुभ फलकारक रहेंगे। अतः आप 15 फरवरी से 14 मार्च के मध्य 5,10,15 तिथियों, आश्लेषा नक्षत्र वज्रयोग तथा विष्टिकरण में कोई भी शुभ कार्य व्यापार प्रारम्भ, नवगृहनिर्माण, कयविकयादि अन्य शुभ कार्यों को सम्पन्न न करें अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। साथ ही शुक्रवार, चतुर्थ प्रहर तथा कुम्भ राशि के चन्द्रमा को भी शुभ कार्यों में वर्जित रखें। इन दिनों तथा समय में शारीरिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें।

यदि आपके लिए समय अशुभ चल रहा हो मानसिक तथा शारीरिक व्याकुलता, व्यापार में हानि, नौकरी या पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो ऐसे समय में आपको अपनी इष्ट देवी जगदम्बा माता की आराधना करनी चाहिए तथा नियमित रूप से वृहस्पतिवार के उपवास रखने चाहिए। साथ ही सोना, पीत पुखराज, पीत चन्दन, पीत वस्त्र, चने की दाल तथा हल्दी आदि पदार्थों का किसी सुपात्र को दान देना चाहिए। साथ ही वृहस्पति के तांत्रिय मंत्र के कम से कम 16000 जप किसी योग्य विद्वान से सम्पन्न करवाने चाहिए। इससे आपकी मानसिक चिन्ताएं दूर होंगी तथा अशुभ फलों के प्रभाव नष्ट होकर शुभ फलों में वृद्धि होगी।

**ॐ ग्रां ग्रीं ग्रो सः वृस्पतये नमः।**

**मंत्र- ॐ ऐं क्लीं वृहस्पतये नमः।**